

सं: 1: 05: 138: II: सी
दिनांक: 2 जनवरी, 2017

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक का कार्यकाल समापन/नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) <u>मुंबई - 400 051</u>	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, तल - 25, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, <u>मुंबई - 400 001</u>
ध्यानाकर्षण: सुश्री रेहाना डीसूजा, सहायक उपाध्यक्ष	ध्यानाकर्षण: श्री अय्यर गोपालकृष्णन, जीएम, कॉर्पोरेट सेवा
फैक्स नं .: 022-26598237/38, 022-66418125/26/24	फैक्स नं .: 022-22723121, 022-22722037/39/41/61

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, हम एतद्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल में निदेशकगण की कार्यकाल समाप्ति एवं नियुक्ति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

I. निदेशक (परियोजना) के पद पर श्री ए.के. अग्रवाल के कार्यकाल का समापन

बदलाव का कारण	भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं.8/5/2011-पीएफसी डेस्क के द्वारा श्री ए.के. अग्रवाल को निदेशक (परियोजना) के रूप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में दिनांक 13 जुलाई, 2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक, जो भी पूर्व हो, नियुक्त किया था। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री ए.के. अग्रवाल दिनांक 31 दिसंबर, 2016 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक नहीं हैं।
कार्यकाल-समाप्ति की तिथि	31 दिसंबर, 2016

II निदेशक (परियोजनाएं) के पद पर श्री चिन्मय गंगोपाध्याय की नियुक्ति

बदलाव का कारण	विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. 8/3/2015-पीएफसी डेस्क के अनुसरण में, श्री चिन्मय गंगोपाध्याय ने दिनांक 1 जनवरी, 2017 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक (परियोजना) का पदभार ग्रहण किया है।
नियुक्ति की तारीख	1 जनवरी, 2017

संक्षिप्त प्रोफाइल	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और एफएमएस, नई दिल्ली से एमबीए की उपाधि ग्रहण की है। उन्हें विद्युत क्षेत्र में कार्यरत संगठनों जैसे एनटीपीसी, पीएफसी और पीएफसीसीएल में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वे पीएफसी के साथ 25 से अधिक वर्षों से जुड़े हैं और उन्होंने परियोजना मूल्यांकन, यूएमपीपी और आईटीपी, इक्विटी और वित्तीय उत्पादों और विद्युत क्षेत्र की परामर्शी सेवाओं में अपना योगदान दिया है। उन्होंने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के सीईओ के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं।
निर्देशकगण के बीच संबंध	शून्य

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com